



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 711 राँची, गुरुवार,

26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-100/2017-918 (HRMS)-- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा श्रीमती नूतन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-1. प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस के विरुद्ध मात्र 37 मानव दिवस सृजन होना ।
आरोप सं०-2. डोभा निर्माण लक्ष्य 250 के विरुद्ध मात्र 111 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है।
आरोप सं०-3. चितरपुर प्रखण्ड में निर्गत 6339 जॉब कार्ड के विरुद्ध मात्र 2629 जॉब कार्ड (41%) का सत्यापन किया गया है ।

आरोप सं०-4. लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में close करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था, परंतु चितरपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की 44, वित्तीय वर्ष 2015-16 की 04 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की 238 योजनाओं को पूर्ण कर close नहीं किया गया है ।
आरोप सं०-5. चितरपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल मजदूरों पर भुगतेय राशि 196.49 लाख के विरुद्ध 31.29 लाख का Delay payment किया गया है, जो कुल

भुगतये राशि का कुल 16 प्रतिशत है ।
आरोप सं०-6. निदेश के बावजूद चितरपुर प्रखण्ड में कुल सृजित परिसम्पत्तियों के विरुद्ध मात्र 20 प्रतिशत परिसम्पत्तियों की Geo-tagging की गयी है ।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-9853, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-988, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12357, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । प्राप्त मंतव्य के अनुसार, प्रपत्र- 'क' का गठन करने के समय मनरेगा योजना में उपलब्धि न्यून थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा बेहतर प्रयास कर संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की गयी । अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

4. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती नूतन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ को आरोपमुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NUTAN KUMARI 110081163089	श्रीमती नूतन कुमारी, झा०प्र०से०, प्रखंड विकास पदाधिकारी, चितरपुर को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक-04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों से मुक्त किया जाता है.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
